

Registered under Act XX of 1847.

HINDUSTANI ACADEMY
Library No. 2044
Date of Receipt 1.2/11/28

अत्यंत उत्तम कवितों का संग्रह ।

HINDUSTANI
Hindi S
Library No.
Date of Receipt

बाबू हरिशंकर सिंह रचित ।

रामदीनसिंह कृत

टिप्पणी समेत ।



“खड़किलाल” प्रेस—बांकीपुर ।

साहबप्रसाद सिंह ने छापकर प्रकाशित किया ।

१८९२.